

एक धातु फलक केंद्रित घनीय एकक जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होती है। एकक कोष्ठिका का किनारा 408 pm हैं। धातु परमाणु का व्यास कितना होगा ?

Given.

$$a = 408 \text{ fm} , d = ?$$

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{a}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{408}{\sqrt{2}} \\ &\Rightarrow \frac{408}{\sqrt{2} \times 1.414} \Rightarrow 144 \text{ fm} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \because d &= 2 \times r \\ &= 2 \times 144 \\ &= 288 \text{ fm} \end{aligned}$$

लिथियम की bcc संरचना हैं। उसका घनत्व  $5.3 \text{ kg/m}^3$  है तथा परमाणुक द्रव्यमान  $6.94 \text{ g/mol}$  हैं। लिथियम धातु की एकक-कोषिका की कोर लम्बाई ज्ञात करें।

Given,

$$d = 5.3 \text{ kg/m}^3; A = 6.94 \text{ g/mol}; a = ?$$

$$d = \frac{\rho A}{N a^3}$$

$$5.3 \Rightarrow \frac{2 \times 6.94}{6.022 \times 10^{23} \times a^3}$$

एक ठोस यौगिक  $XY$  का ढांचा  $NaCl$  हैं। यदि धनायन की त्रिज्या  $100pm$  हो, तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी ?

Given.  $r^+ = 100pm$ ,  $r^- = ?$

$$\frac{r^+}{r^-} = 0.414 \quad \left| \begin{array}{l} r^- = \frac{100}{0.414} \\ = 241.5 pm \end{array} \right.$$

$$\frac{100}{r^-} = 0.414$$

एक आयनिक क्रिस्टल के फलक केंद्रित घनीय एकक के किनारे की लम्बाई 508 pm हैं। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm हो, तो क्रणायन की त्रिज्या क्या होगी ?

Given:  $a = 508 \text{ pm}$ ,  $r^+ = 110 \text{ pm}$ ,  $r^- = ?$

$$110 + r^- = \frac{508}{2}$$

$$144 \text{ pm}$$

**fcc**

$$r^+ + r^- = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

**bcc**

$$(r^+ + r^-) = \frac{\sqrt{3}a}{2}$$

यदि  $\text{NaCl}$  को  $10^{-4}$  mol प्रतिशत  $\text{SrCl}_2$  से डोपित किया जाए, तो धनायनों का सांदरण क्या होगा ?

$$\begin{aligned} \text{NaCl} &\text{ के } 100 \text{ मील } \text{ में } - 10^{-4} \text{ mol} \\ \text{Be} & \quad | \text{ गल } = \frac{10^{-4}}{100} \\ \text{Mg} & \\ \text{Ca} & \\ \text{Sr} & \quad \boxed{\frac{10^{-4}}{100} \times 6.022 \times 10^{23}} \\ \text{Ba} & \\ \text{Ra} & \end{aligned}$$

आदर्श NaCl क्रिस्टल के 1 ग्राम में एकक कोषिकाओं की लगभग संख्या की गणना करें।

$$\text{NaCl} = 23 + 35.5 \\ = 58.5 \text{ g}$$

$$\therefore 58.5 \text{ g} = 6.022 \times 10^{23}$$

$$\therefore 1 \text{ g} \longrightarrow \frac{6.022 \times 10^{23}}{58.5}$$

$$\gamma = R(10^4(4-1))$$

$$\gamma = R \times 0.414$$


$$\frac{\gamma}{R} = 0.414$$

$$2R + 2\gamma = \sqrt{2} R$$

$$2R + 2\gamma = 2\sqrt{2} R$$

$$2\gamma = \sqrt{2} R - R$$

$$\gamma = \frac{R}{\sqrt{2}}(\sqrt{2} - 1)$$



$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \quad \text{by Pythagorean theorem}$$

$$(2R + 2\gamma)^2$$

$$+ (2R)^2$$

$$AC^2 = 4R^2 + 4R^2$$

$$(2R + 2\gamma)^2 = 8R^2 + 4R^2$$

$$(2R + 2\gamma)^2 = 12R^2$$

$$\frac{\Delta ABC}{\text{H}}$$

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$(2R + 2\gamma)^2 = (2R)^2 + (2R)^2$$

$$(2R + 2\gamma)^2 = 4R^2 + 4R^2$$

$$(2R + 2\gamma)^2 = 8R^2$$


$$(2R + 2\gamma) = \sqrt{8R^2}$$

$$(2R + 2\gamma) = 2\sqrt{2}R$$

$$2R + 2\gamma = 2\sqrt{2}R$$

$$2\gamma = 2\sqrt{2}R - 2R$$

$$2\gamma = 2R(\sqrt{2} - 1)$$



$$\gamma = R(\sqrt{2} - 1)$$

$$\gamma = R(1.414 - 1)$$

$$\frac{\gamma}{R} = 0.414$$

## Numerical

- I Chapter overview with formula.
- II Data collection from question.
- III Relate = 

data → find

Practice

I

धनते

II

सूर्य

III

अ शीर

IV

विद्या-विद्युपात

V

कोटि

